

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजापत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

#### जिला-उज्जैन

- |  |        |
|--|--------|
| 1. श्री आर. के भावसार, कार्य. यंत्री, कार्या. मुख्य अधि., लो. नि. वि., उज्जैन    | उज्जैन |
| 2. श्री पी. के. सक्सेना, प्रबंधक, म. प्र. स्टेट एग्री चिमनगंज मंडी, उज्जैन       |        |
| 3. श्री एम. जी. शर्मा, कार्य., यंत्री म. प्र. वि. मण्डल, उज्जैन                  |        |
| 4. श्री देवेन्द्र कुमार तलाटी, प्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक, उज्जैन             |        |
| 5. श्री एस. के. माजू, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन                       |        |
| 6. श्री आर. सी. जैन, कार्य., यंत्री म. प्र. वि. मण्डल, उज्जैन                    |        |
| 7. डॉ. के. के. द्विवेदी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन                      |        |
| 8. श्री ए. एल. मलिक, अति. अधी. यंत्री, म. प्र. विविकलि, उज्जैन                   |        |
| 9. श्री अनिल कुमार गर्ग, उप संचा. स्था. निधी संपरीक्षा, उज्जैन                   |        |
| 10. डॉ. दीपक गुप्ता, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन                        |        |
| 11. डॉ. प्रवीण गुप्ता, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन                      |        |
| 12. श्री के. के. गुप्ता, मु. कार्य. अधि., जिला अन्त्यावसायी, सह. वि. नि., उज्जैन |        |

13. श्री के. एस. राजपूत, महा. म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधि., उज्जैन
14. श्री गुलाब सिंह डावर, संयु. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, उज्जैन
15. श्री पियुष दुबे उप संचालक, मत्स्य विभाग, उज्जैन
16. श्री व्ही. जी. शिन्दे, कार्य. यंत्री, लो. स्वा. यां. संधारण खण्ड (नपानि) उज्जैन
17. श्री अशोक शर्मा, उप संचा., नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन
18. श्रीमती शोभा खन्ना, कार्य. यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण, उज्जैन
19. डॉ. के. जी. वाडीकर, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
20. श्री दिलीप डोंगरे, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, ग्रा. यां. से., उज्जैन
21. श्री जे. के. जैन, कार्य. यंत्री, विकास प्राधिकरण, उज्जैन
22. श्री आर. के. गोंटिया, अधी. यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उज्जैन
23. श्री संजीव उमट, संयु. संचा., कृषि विकास एवं कि. कल्याण, उज्जैन
24. डॉ. प्रीति जैन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
25. श्री रणजीतसिंह चौहान, अधीक्षक, भू-अभिलेख,
26. श्री राकेश शर्मा, सहा. अधी., भू-अभिलेख एवं प्र. पटवारी ट्रेनिंग स्कूल, उज्जैन
27. श्री डी. सी. झाला, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, उज्जैन
28. श्री एस. के. श्रीवास्तव, उप संचालक, उद्यान, उज्जैन
29. श्री एम. एल. जोशी, क्षे. प्रबं. इंडि. फार. फर्टि. लिमि., उज्जैन
30. श्री सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी, न. पा. नि., उज्जैन
31. श्रीमती उषा बेदरे, प्राचार्य, शा. शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन
32. श्री ए. के. वर्मा, अति. अधी. यंत्री, म. प्र. वि. मण्डल, उज्जैन
33. श्री के. पी. एस. जेम्स, सहा. यंत्री, म. प्र. वि. वि. कं. लि., उज्जैन
34. श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ, उप संचा., म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी)
35. श्री ओ. एल. मण्डलॉर्ड, संयुक्त संचा., लोक शिक्षण संभाग, उज्जैन
36. श्री सी. के. जैन, उप संचा., कृषि विकास एवं किसान कल्याण, उज्जैन
37. श्री ओमप्रकाश भक्त, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन
38. श्री आनन्द जैन, महाप्रबंधक, म. प्र. ग्रामीण सड़क वि. प्रा., उज्जैन
39. डॉ. (श्रीमती) रेखा गवारीकर, प्राचार्य, शा. कालिदास कन्या महा., उज्जैन
40. श्री एल. एन. मालवीया, कार्य यंत्री, लो. स्वा. या. मै. खण्ड, उज्जैन
41. श्री व्ही. के. तिवारी, का. यंत्री विकास प्राधिकरण, उज्जैन
42. श्री महेश प्रकाश विमल, का. यंत्री, विकास प्राधि., उज्जैन
43. श्री ए. के. पारे, संभागीय उपायुक्त, आबकारी, उज्जैन
44. श्री डी. के. पाठक, सहा. यंत्री, वरिष्ठ भू-जल विद, उज्जैन
45. डॉ. हरिवल्लभ त्रिवेदी, पशु चिकित्सा सहायक, शल्यज्ञ, उज्जैन
46. डॉ. जी. एन. भटनागर, पशु चिकित्सा सहायक, शल्यज्ञ, उज्जैन
47. श्री रामदास मेंढेकर, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
48. श्री एस. पी. दिक्षीत, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
49. श्री डी. एस. मीणा, अधीक्षक, भू-अभिलेख

तराना

50. श्री आर. एस. चौरसिया, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
51. श्री अशोक कुमार जैन, अधीक्षक, भू-अभिलेख, डायवर्सन
52. श्री जी. डी. कर्पे, सहा. यंत्री, अनु. अधि. लो. नि. परि., उज्जैन महिदपुर
53. श्री एम. के. सक्सेना, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
54. श्री के. के. शर्मा, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. वि.मण्डल, महिदपुर
55. श्री पी. जी. केलकर, सहा. यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण
56. श्री एस. एन. मुनिया, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन
57. श्री मनोज अग्निहोत्री, जिला रोजगार अधि., उज्जैन
58. डॉ. शरद विष्णु भाले, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
59. श्री नवीन गडकरी, कार्य. यंत्री, म. प्र. राज्य कृषि विप. बोर्ड, उज्जैन
60. श्री ए. ए. खान, उप संचा., जल संसा. उप खाचरौद
61. श्री आर. आर. दाडे, सहा. प्रबंधक, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधि., उज्जैन
62. श्री एस. के. वर्मा, सहा. यंत्री, वि. सुरक्षा एवं सहा. वि.नि., उज्जैन
63. श्री राजीव गुप्ता, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उज्जैन
64. श्री राजेश जोशी, सहा. यंत्री, लो. स्वा. यां., उज्जैन
65. डॉ. राजीव मोहन नाथ खरे, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
66. श्री के. के. सोनगरिया, अधी. यंत्री, लो.स्वा. यां., उज्जैन
67. श्री एच. एस. पाटीदार, कार्य. यंत्री, वि. प्राधि., उज्जैन
68. डॉ. आर. ए. कुरेशी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
69. श्री आर. आर. शाक्य, कार्य. यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां.), उज्जैन
70. डॉ. दिनेश सोनी, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
71. श्री सुधीर चौरे, कार्य. यंत्री, विद्युत् सुरक्षा एवं सभागीय वि. निरी., उज्जैन
72. श्री जगदीश डगांवकर, अधीक्षण यंत्री, न. पा. नि., उज्जैन
73. श्री प्रकाश कुमार चौकसे, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़नगर
74. श्री आर. के. द्विवेदी, सहा. यंत्री, लो. स्वा. यां., संभरण खण्ड न. पा. नि., उज्जैन
75. डॉ. मुकेश कुमार जैन, पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ, उज्जैन
76. डॉ. उमेश कुमार जैन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
77. श्री आलोक व्यास, कार्य. यंत्री, म. प्र. ऊर्जा वि. निगम, उज्जैन
78. श्री श्रीकांत ठाकुर, महा. जिला व्या. एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन
79. श्री अनिल दार्वेकर, क्षे. प्रबं., म. प्र. स्टेट एग्रो एंड डेव्ल. का., उज्जैन
80. श्री जे. पी. श्रीवास्तव, कार्य. यंत्री, जिला पंचा., उज्जैन
81. श्री सी. पी. शर्मा, अधीक्षक, भू-अभिलेख, नियमित
82. श्री रामदास मेंढेकर, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
83. श्री रणजीतसिंह चौहान, अधीक्षक, भू-अभिलेख
84. श्री राकेश शर्मा, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं प्रधानाध्यापक पटवारी ट्रेनिंग स्कूल
85. श्री डी. एस. मीणा, अधीक्षक, भू-अभिलेख
86. श्री दिलीप गरुड़, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

87. डॉ. गोपाल गिरी गोस्वामी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन घट्टिया
88. डॉ. के. जी. वाडीकर, पशु चिकित्सा सहायक, शल्यज्ञ, उज्जैन
89. श्री एम. के. नामदेव, अधीक्षण यंत्री, एमपीएसईबी (सिविल), उज्जैन
90. श्री एस. एल. वेद, सलंगनाधिकारी वन विभाग, उज्जैन
91. श्री एच. एस. मेहर, संयु. संचा., कृषि विकास एवं किसान कल्याण, उज्जैन
92. श्री के. एल. डोंगरे, अधी. यंत्री, जल संसा. विभाग, उज्जैन
93. श्री सी. एस. डाबर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, केन्द्रीय सह. बैंक, उज्जैन
94. श्रीमती रंजना सिंह, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, उज्जैन
95. श्री आर. के. जोशी, सहा. यंत्री, पंचा. एवं सामा. न्याय, उज्जैन
96. डॉ. व्ही. एच. बादशाह, आचार्य विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
97. डॉ. नागेश शिन्दे, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
98. डॉ. बी. के. शर्मा, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
99. डॉ. प्रभात कुमार पाराशर, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
100. श्री आर. एस. चौरसिया, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
101. श्री एस. पी. दिक्षीत, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
102. श्री अशोक कुमार जैन, अधीक्षक, भू-अभिलेख डायवर्सन
103. श्री एस. एस. मरावी, संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति कल्याण, उज्जैन खाचरौद
104. श्री पी. के. सक्सेना, प्रबंधक, म. प्र. स्टेट एग्री चिमनगंज मंडी, उज्जैन
105. श्री एम. जी. शर्मा, कार्य. यंत्री, म. प्र. वि. मण्डल, उज्जैन
106. श्री देवेन्द्र कुमार तलाटी, प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, उज्जैन
107. श्री के. के. रायपुरिया, सहा. यंत्री, मप्रपक्षेविकलि, खाचरौद
108. श्री एस. के. माजू, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
109. डॉ. के. के. दिवेदी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
110. डॉ. बी. एस. चौहान, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
111. डॉ. हरिवल्लभ त्रिवेदी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
112. श्री के. एस. राजपूत, महा. म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, जिला उज्जैन
113. डॉ. प्रवीण गुप्ता, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
114. श्री के. के. गुप्ता, मु. कार्य. अधि., जिला अन्त्यावसायी सह. वि.नि., उज्जैन
115. श्री डी. एस. चौहान, कार्यपालन यंत्री, मप्रपक्षेविकलि, नागदा
116. श्री अशोक शर्मा, उप संचा., नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन
117. श्रीमती शोभा खन्ना, कार्य. यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण, उज्जैन
118. श्री दिलीप डोंगरे, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.से., उज्जैन
119. डॉ. जी. एन. भटनागर, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
120. श्री एस. के. उपाध्याय, सहा. यंत्री, मप्रपक्षेविकलि, नागदा
121. श्री चेतनसिंह परमार, कार्य. यंत्री, विकास प्राधिकरण, उज्जैन
122. श्री एस. सी. चौबे, संयु. संचा., महिला एवं बाल विकास, उज्जैन
123. श्री पी. के. सक्सेना, कार्य.यंत्री, ले.नि.वि., उज्जैन

124. डॉ. बी. आर. सोनवाने, क्षे. कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन
125. डॉ. गोपाल गिरी गोस्वामी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
126. डॉ. अरुण कुमार वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
127. श्री अशोक कुमार जैन, अधीक्षक, भू-अभिलेख, डायवर्सन
128. श्री सी. पी. शर्मा, अधीक्षक, भू-अभिलेख, नियमित
129. श्री रणजीत सिंह चौहान, अधीक्षक, भू-अभिलेख-94240-01623
130. श्री राकेश शर्मा, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं प्रधानाध्यापक, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल, -98935-06630
131. श्री डी. एस. मीणा, अधीक्षक, भू-अभिलेख
132. श्री दिलीप गरुड, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
133. श्री रामदास मेंढेकर, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
134. डी. सी. झाला, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, उज्जैन बड़नगर
135. श्री एस. के. श्रीवास्तव, उप संचालक, उद्यान, उज्जैन
136. श्री एम. एल. जोशी, क्षे. प्रबं., इंडि. फार. फर्टि. लिमि.
137. श्री के. एल. वर्मा, अति. अधीक्षण यंत्री, बड़नगर
138. श्री एस. एस. वर्मा, लेखा अधिकारी, महर्षि पाणिनी विश्वविद्यालय, उज्जैन
139. श्री गिरीष कुमार जैन, कार्य. यंत्री, मप्रगृह निर्माण मण्डल, उज्जैन
140. श्री के. पी. एस. जेम्स, सहा. यंत्री, मप्रविविकलि, उज्जैन
141. श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ, उप संचा. म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी)
142. श्री ओ. एल. मण्डलोई, संयुक्त संचा., लोक शिक्षण संभाग, उज्जैन
143. श्री सी. के. जैन, उप संचा., कृषि विकास एवं किसान कल्याण, उज्जैन
144. श्री संजीव उमट, संयु. संचा, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, उज्जैन
145. श्री आनन्द जैन, महाप्रबंधक, म. प्र. ग्रामीण सड़क वि. प्रा., उज्जैन
146. श्री बाबूलाल गौतम, सहा. श्रमायुक्त, उज्जैन
147. श्री एल. एन. मालवीया, कार्य यंत्री, लो.स्वा.यां. में. खण्ड, उज्जैन
148. श्री व्ही. के. तिवारी, का. यंत्री, विकास प्राधिकरण, उज्जैन
149. श्री महेश प्रकाश विमल, का. यंत्री, विकास प्राधि., उज्जैन
150. श्री ए. के. पारे, संभागीय उपायुक्त, आबकारी, उज्जैन
151. श्री डी. के. पाठक, सहा. यंत्री, वरिष्ठ भू-जल विद, उज्जैन
152. श्री डी. एस. शुजालपुरकर, सहा. यंत्री, भू-जल विद, उज्जैन
153. डॉ. प्रीति जैन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
154. श्री पियुष दुबे, सहा. संचा., कार्यालय, उप संचा., मत्स्य उद्योग, उज्जैन
155. डॉ. एम. के. सक्सेना, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
156. डॉ. जी. एन. भटनागर, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उज्जैन
157. श्री एस. पी. दिक्षीत, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
158. श्री आर. एस. चौरसिया, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
159. श्री रणजीत कुमार, अधीक्षक, भू-अभिलेख, डायवर्सन